



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2012 (कार्तिक 19, 1934)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2012 (KARTIKA 19, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

सं. आरएस. 20/1/2012/107-कार्मिक--श्रीमती महालक्ष्मी बालसुब्रह्मणियन, सहायक निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप श्रीमती महालक्ष्मी बालसुब्रह्मणियन को 23 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में उनके दायित्वों से कार्ययुक्त कर दिया गया है।

सं. ए-19016/215/94-प्रशा.3--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवासंवर्ग के श्रीमती रमिन्दर कौर, प्रधान निजी सचिव दिनांक 31.10.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही हैं।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

सुभा चन्द्रशेखर, अधिशासी अधिकारी

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

सं. ए. 12011/11/2012--श्री ए.एस. किरन कुमार, विशिष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद को योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत शीर्ष वेतनमान में दिनांक 01.07.2012 से पदोन्नत किया जाता है।

एन पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. ए-32013/01/2012-प्रशा.3--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) द्वारा जोनिंग स्कीम के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची वर्ष 2010 (भाग) (वरीयता कोटा) में उन्हें सम्मिलित किए जाने एवं योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप तथा उनके संबंधित संवर्ग एककों से कार्यमुक्त किए जाने के उपरान्त, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव (तदर्थ) को योजना आयोग में वेतन बैंड पी.बी. 2 (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन

रु. 4,800/-) के वेतन ढांचे में निजी सचिव के पद पर नियमित आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	सम्मिलित वरीयता सूची में क्र.सं.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड में चयन सूची वर्ष	संवर्ग एकक जहां योजना आयोग में कार्यभार करने से पूर्व कार्यरत थे	योजना आयोग में निजी सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी					
1.	राजेन्द्र कुमार	246	1992	ग्रामीण विकास	19.09.2012 (पूर्वाह)
2.	के. सतीसन	855	1995	श्रम मंत्रालय	10.09.2012 (अपराह)
गुलवीना बधान, अवर सचिव					

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

सं. ए-12001/02/2011-प्रशा.-I--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री मनीष त्रिपाठी, आईडीएस (1998) को 30.05.2015 तक उनकी पांच वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (सांख्यिकी और का.का.) एवं राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) (श्री श्रीकांत जेना) के निदेशक स्तर पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया है। यह नियुक्ति ओएसडी के पद से कार्यभार त्यागने के उपरांत इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अर्थात् 29.04.2012 (पूर्वाह) और मंत्री के साथ सह-सामिप्य आधार पर अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

के.आर. शर्मा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

सं. ए-38013/1/2012-वि.सा.प्र.(प्र.)--श्री कुलदीप कुमार, निदेशक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर तारीख 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

शारदा जैन, अपर सचिव एवं विधायी परामर्शी

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 सितम्बर 2012

सं. के. 13029/3/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अर्जुन कुमार सीकरी को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 13024/2/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती मंजुला चेल्लूर को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगी, से केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 13017/7/2012-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री धर्म मुरुगेशन को उस तारीख, जब वे अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. के. 11017/11-13/2010-यू.एस.-I(ii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुशील हरकौली का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करते हैं और उन्हें दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 अथवा इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/11-13/2010-यू.एस.-I(ii)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात्, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री तरून अग्रवाल का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करते हैं और उन्हें दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 अथवा इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

अनिल कुमार गुलाटी, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

सं. I-14012/01/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के 64 आर.आर. (2011 बैच) के निम्न परीक्षाधीन अधिकारी,

जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा परीक्षा, 2011 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर नियुक्ति के लिए चयन होने पर, उनके नाम के सामने अंकित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा से उनकी तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार की जाती है:--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	संवर्ग	बैच	तकनीक त्याग पत्र की तारीख
	सर्वश्री			
1.	संदीप सिंह, भा.पु.से. (प.)	उत्तर प्रदेश	2011	24.08.2012 (अप्रा.)
2.	मंगेश कुमार, भा.पु.से. (प.)	उत्तराखण्ड	2011	24.08.2012 (पूर्वा.)

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

सं. I-18011/11/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री नूपर प्रसाद, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2007) को दिनांक 18.08.2009 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

सं. I-18011/11/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लेखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं:--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1.	श्री एस. श्रीजीथ, भा.पु.से. (केरल:1996)	05.09.1998
2.	श्री बलराम कुमार, उपाध्याय भा.पु.से. (केरल:1997)	07.09.1999
3.	श्री दिनेन्द्र कश्यप, भा.पु.से. (केरल:1998)	28.12.2000
4.	श्री अशोक यादव, भा.पु.से. (केरल:1998)	07.09.2000
5.	श्री सुनिल अशनानी, भा.पु.से. (केरल:1999)	20.09.2001
6.	श्री पी. विजयन, भा.पु.से. (केरल:1999)	20.09.2001
7.	श्री संतोष वर्मा ए.आर. भा.पु.से. (केरल:2001)	26.12.2003
8.	श्री विक्रमजीत सिंह, भा.पु.से. (केरल:2004)	06.09.2006
9.	श्री पी. प्रकाश, भा.पु.से. (केरल:2004)	27.12.2006
10.	श्री नीरज कुमार गुप्ता, भा.पु.से. (केरल:2005)	22.08.2007
11.	श्री ए. अकबर, भा.पु.से. (केरल:2005)	22.08.2007
12.	श्री कोरी संजय कुमार गुरुदीन, भा.पु.से. (केरल:2005)	22.08.2007
13.	श्री देवेश कुमार बेहेरा, भा.पु.से. (केरल:2007)	18.08.2009
14.	श्री राजपाल मीणा, भा.पु.से. (केरल:2007)	10.12.2009

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

सं. 1/3/2006-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री वानलामबॉक सिनरेम (आईईएस : 85) को दिनांक 18.04.2012 से अगले आदेश आने तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) सचिवालय, शिलांग में आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोलि चलई, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2012

सं. 20/एस/76-प्रशा.I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की श्रीमती वीना खन्ना, प्रधान निजी सचिव सरकारी सेवा से अपराह 31 जुलाई, 2012 अपराह से सेवानिवृत्त हुई।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

सं. 20/जी/1327-प्रशा.I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्रीमती अंजली माथुर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुभाग अधिकारी सरकारी सेवा से 31 जुलाई, 2012 अपराह से सेवानिवृत्त हुई।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

सं. 20/जी/1325-प्रशा.I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्रीमती मोहिनी मल्होत्रा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुभाग अधिकारी सरकारी सेवा से 31 जुलाई, 2012 अपराह से सेवानिवृत्त हुई।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

सं. 20/जी/1288-प्रशा.I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, श्री पी. प्रभाकरन, निदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 31 जुलाई, 2012 अपराह को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2012-प्रशा. I (पार्ट-I)--दिनांक 17 अगस्त, 2012 के आदेश सं. 5/2/2012-सीएस-I(यू) द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से इस विभाग में उनका स्थानान्तरण हो जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री ए. डी. जेम्स (सीएसएल सं. 4678-ए), अवर सचिव को 10 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह से, अगले आदेशों तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में नियुक्त करते हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

दिनांक 19 अक्टूबर 2012

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

सं. 32/पीबी-1/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी, श्री बी. एन. थामस (जन्म तिथि : 30.09.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

सं. 33/पीबी-1/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी, श्री जसवन्त कुमार (जन्म तिथि : 25.09.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

सं. 34/पीबी-1/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी, श्री के. वी. चन्द्रशेखरन (जन्म तिथि : 12.09.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

सं. 35/पीबी-1/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी, श्री एस. एल. अरोड़ा (जन्म तिथि : 28.09.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

सं. 36/पीबी-1/2012--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II एवं III के अधिकारी, श्री सुभाष कुमार (जन्म तिथि : 05.09.1952) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अगस्त, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दीपिका मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-1)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2012

सं. 2011 का 13 फा. सं. ए-39011/1/2010-प्रशा. VI--राष्ट्रपति, 11.05.2012 से श्री के. शुभेन्द्र का भारतीय राजस्व सेवा से तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

सं. 17/2012 फा. सं. ए-23012/12/2009-प्रशा. VI--भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 23.08.2011 से वेतन बैंड 67,000--79,000/- रुपये में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में गैर कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	सिविल कोड
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	अर्चना रंजन	79024
2.	टी. जयशंकर	79025
3.	कमरेश सरकार	79026
4.	सुरभि सिन्हा	79028
5.	विवेक वरुण प्रसाद	79029
6.	इंडला सुरेश बाबू	79030
7.	अनिल कुमार सिंह	79031
8.	रवि माथुर	79032
9.	राजीव नयन प्रसाद	79033
10.	ए. के. सिन्हा	79034
11.	प्रवेला रघु	79035
12.	कुलविन्द्र सिंह	79036
13.	लव कुमार सक्सेना	79037
14.	अशोक कुमार भारद्वाज	79039
15.	प्रदीप आर. सेठी	79040
16.	गुरप्रीत सिंह	79043
17.	अश्वनी कुमार मेहता	79044
18.	अमित चटर्जी	79045
19.	राज कुमार	79046
20.	रतन किशोर बजाज	79047
21.	सिद्धार्थ मुखर्जी	79050
22.	शोभा भट्टाचार्या	79052
23.	नारायण प्रसाद भगवत	79054
24.	अमरेन्द्र कुमार तेवारी	79055
25.	फकीर मोहन मोहन्ती	79056
26.	विजय कुमार बक्शी	79058

1	2	3
27.	गुन्जन मिश्रा	79059
28.	सुशील कुमार सहाय	79060
29.	निशि सिंह	79063
30.	एल. एच. माने	79066
31.	हर प्रसाद कैन	79069
32.	जगतार सिंह	79070
33.	हरि किशन	79072
34.	सी. एल. डेंगजोंगप्पा	79078

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

सं. 11012/1/2011-आईईएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2011 में सफल रहे निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, यथासंशोधित भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 के नियम 6(क) के अंतर्गत, भारतीय आर्थिक सेवा में कनिष्ठ समय मान में पे बैंड-3 : 15,600--39,100/- रुपए जमा ग्रेड पे : 5,400/- रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने वर्णित तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
1.	सुश्री तमन्ना सिन्हा	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री प्रेरणा गुप्ता	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
3.	सुश्री नयनतारा शशिकुमार	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री सुखदीप सिंह	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
5.	सुश्री निधि अमित सतीजा	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री दीपक रंजन	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
7.	श्री सुशांत सूदन	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
8.	सुश्री करमजीत कौर	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
9.	सुश्री अनु जैन	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
10.	श्री प्रतियूष कुमार	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
11.	श्री कोटे संदीप रविन्द्र	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
12.	श्री मनोज कुमार मधोलिया	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
13.	श्री दिनेश कुमार	3.9.2012 (पूर्वाह्न)

1	2	3
14.	श्री रमेश कुमार यादव	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
15.	सुश्री श्वेता	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
16.	श्री अरुण जी	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
17.	श्री राजेश कुमार	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
18.	सुश्री लालरमदिनपुरी रेंथली	3.9.2012 (पूर्वाह्न)
बिदिशा चौधरी, निदेशक (आईईएस)		

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

सं. ए-22011/1/2012-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, श्री दीपक राव (आईईएस : 2008) को 01.10.2012 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

सं. ए-22012/8/2012-स्थापना--व्यय विभाग के दिनांक 16.10.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-12026/8/2010-सीएएस के अनुसरण में, गृह मंत्रालय संवर्ग के निजी सचिव (तदर्थ) श्री अमर सिंह को वरीयता कोटा के प्रति चयन सूची वर्ष 2010 (भाग) में उनका नाम सम्मिलित किए जाने पर नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड में दिनांक 08.10.2012 अपराह्न से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यबल में लिया जाता है।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2012

सं. 7/3/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री के. साई मोहन को दिनांक 10.09.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. 8/5/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, न्यायमूर्ति आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद को दिनांक 11.10.2012 से ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस. एन. एच. जैदी के छुट्टी से वापस आने तक अपने स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

सं. ए-11013/2/2012-एड. I (पार्ट-3)--राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार यादव, भापुसे (एचपी : 96) को 06 अगस्त, 2012 से सात वर्ष के उनके स्वीकार्य कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 06.07.2015 तक अथवा मंत्री के साथ सह-अवसानी आधार पर अथवा वित्त मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाना बंद किए जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, "पार्ष्विक परिवर्तन" आधार पर निदेशक स्तर पर वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

दिनांक 17 अक्टूबर 2012

सं. ए-12026/5/2010-एडी. I--राष्ट्रपति, श्रीमती सुधा कृष्णन, आईए एंड एस (1983) को उनकी पांच वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 08.11.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रु. (पीबी-4) + 10,000/- रु. (ग्रेड वेतन) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 16 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 सितम्बर 2012

सं. ए-32013/8/2012/गुप ए/2065-2078--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली, 2006 के संदर्भों में रु. 8,000-275-13,500/- (संशोधन-पूर्व) (रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन के साथ नया वेतन बैंड-3) के वेतनमान में भारतीय सिविल

लेखा सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समयमान में 1 अक्टूबर, 2012 (पूर्वाह्न) से, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. नाम

- सर्वश्री
1. ए. के. मिश्र (गुजरात विद्यापीठ में प्रतिनियुक्ति पर)
2. प्रवेश सी. तलवार
3. एम. एम. कौशिक
4. रमेश चन्द्र
5. रमेश हाडा (अ.जा.)
6. आर. एस. शेन्दे (अ.जा.)
7. शम्भू प्रसाद झरिया (अ.जा.)

2. परिवीक्षा की अवधि 1 अक्टूबर, 2012 से दो वर्ष तक होगी।

सी. महेश्वरन, उप महालेखा नियंत्रक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

सं. पीएफजी (579)/97-प्रशासन-II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एन. कृष्णामूर्ति को दिनांक 03.10.2012 से अगले आदेशों तक कम्पनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद नियुक्त करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी (483)/87-प्रशासन-II--केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. वी. चक्रनारायण को दिनांक 05.10.2012 से अगले आदेशों तक शासकीय समापक, केरल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

सं. 24/2012 (ए-19011/30/2012-ई-1)--राष्ट्रपति, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, आई डी ए एस (1999) को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में वेतन बैंड-3 (रुपए 15,600--39,100/-) + ग्रेड वेतन रुपए 7,600 में उप सचिव के रूप में दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 (अपराह्न) से अथवा चार वर्षों की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

प्रेम टी. एन., अवर सचिव

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

सं. ए-32015/7/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव (तदर्थ) श्रीमती अनुराधा शर्मा को 01.10.2012 (पूर्वाह्न) से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए वरीयता कोटा में पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित निजी सचिव के रूप में पीबी-2 (रुपए 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रुपए 4,800/-) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव, श्रीमती अनुराधा शर्मा को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

सं. ए-32013/1/2012-एचआरडी-1--राष्ट्रपति, श्री के. सी. राउत, भा.व्या. सेवा, को 37,400--67,000/- रुपए के वेतनमान तथा 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में 19 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से और अगले आदेश तक विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के रूप में नियुक्त करते हैं।

आशीष मोहन, उप महानिदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2012

सं. ए-32011/4/2008-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2012 के का.ज्ञा. सं. 6/11/2012-सीएस-I (एस) के अनुसरण में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री संजय कुमार [एसएल-2003 (क्रम सं. 77)/सामान्य] को 05.09.2012 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर, 2012 तक या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराए जाने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 + रु. 4,800/- (ग्रेड वेतन) में इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. श्री संजय कुमार की अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति सर्वथा तदर्थ स्वरूप की है और इससे उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के पद के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 17 अक्टूबर 2012

सं. ए-38011/5/2012-स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में वरिष्ठ सलाहकार,

डॉ. बसुदेव मोहंती (भा.आ.से. : 76) 31 अगस्त, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2012

सं. ए-38011/3/2012-मा.सं.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री डी. एम. वर्मा, अवर सचिव दिनांक 31.08.2012 से भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

राजीव कुमार, उप सचिव (एएंडवी)

सं. ए-38011/11/2011-मा.सं.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री अजय भट्टाचार्य, सचिव (उर्वरक) दिनांक 31.08.2012 से भारत सरकार की सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

राजीव कुमार, उप सचिव (एएंडवी)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. ए-12011/4/2012-एच.आर.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सीएस-I (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमित अवर सचिव श्रीमती सुरेन्द्र कौर (सीएसएल सं. 4756) को डीओपीटी के उपर्युक्त आदेश में निहित निबंधन एवं शर्तों के अध्वधीन 17.08.2012 पूर्वाह्न से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग में तदर्थ आधार पर रु. 15,600--39,100/- के पे-बैंड में रु. 7,600/- के ग्रेड पे में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

सं. ए-12011/4/2012-एच.आर.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सीएस-I (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमित अवर सचिव श्री एच. सी. भनोत (सीएसएल सं. 4714) को डीओपीटी के उपर्युक्त आदेश में निहित निबंधन एवं शर्तों के अध्वधीन 06.08.2012 पूर्वाह्न से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग में तदर्थ आधार पर रु. 15,600--39,100/- के पे-बैंड में रु. 7,600/- के ग्रेड पे में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें 24 अगस्त, 2012 पूर्वाह्न से उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यालय (एफआईसीसी), उर्वरक विभाग में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

सं. ए-19011/12/2012-मा.सं.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 सितम्बर, 2012 के आदेश सं. 2/19/2012-ईओ(एसएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय श्री सुधीर मिश्र, आईएएस (पीबी : 78) को 10 सितम्बर, 2012 पूर्वाह्न से उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

सं. ए-23011/17/2012-मा.सं.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा.सं. 4/2/2012-सीएस-II (क) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय श्रीमती उमा राजपूत (सीएसएल सं. 874) को प्रवर सूची वर्ष 2010 (भाग) के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 04.09.2012 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में रु. 4,800/- के ग्रेड-पे में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उन्हें उर्वरक विभाग में वर्तमान रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

सं. ए-23011/17/2012-मा.सं.-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा.सं. 4/2/2012-सीएस-II (क) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय श्रीमती गुरमीत कौर घई (सीएसएल सं. 177) को प्रवर सूची वर्ष 2010 (भाग) के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 04.09.2012 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में रु. 4,800/- के ग्रेड-पे में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उन्हें औषध विभाग में वर्तमान रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चंदा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ए-12011/18/2006-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.12.2011 के का.ज्ञा.सं. 9/7/2011-ईओ (एमएम-1) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के दिनांक 16.03.2012 के कार्यालय आदेश सं. बीएसएनएल/बीबीएनडब्ल्यू/स्टफ-1/भाग-V/भाग फाइल/58 के अनुसरण में श्री नीरज सिंघल, इंडियन टेलिकॉम सर्विस (1994) को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरक विभाग में 19 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पांच वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उन्हें निदेशक (पीएसयू) के रूप में पद नामित किया जाता है।

पी. बी. साहू, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

सं. 12/8/2012/एसओ--राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार शर्मा, आईओएफएस (1989) को कोयला मंत्रालय में निदेशक के रूप में 29.10.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस. असरफ, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

सं. पी-1243/2010-स्था.--अधिवर्षिता की आयु होने पर, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के निदेशक, श्री ए. एम. पाठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

जी. एन. सिंह, निदेशक (स्थापना)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

सं. ए-12011/02/2006-स्थापना-I--वरिष्ठता कोय के लिए जोनिंग स्कीम के अंतर्गत चुनिन्दा सूची वर्ष 2010 के लिए सीएसएसएस के स्टेनो ग्रेड 'ए एण्ड बी' (विलीन) की चुनिन्दा सूची में श्री कुलबीर सिंह सैनी के नाम को सम्मिलित करने और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के तारीख 17.07.2012 के कार्यालय आदेश संख्या 4/2/2012-सीएस-II (ए) के तहत उनका नामांकन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग को किए जाने के परिणामस्वरूप और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की दिनांक 08.10.2012 की अधिसूचना संख्या ए-32011/01/2012-प्रशासन-I (ए) के अनुसरण में श्री कुलबीर सिंह सैनी, निजी सचिव को 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड में 10 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) और आगे के आदेशों तक जैव प्रौद्योगिकी विभाग की नामावली पर लिया जाता है।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2012

सं. ए. 32014/1/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए), दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा जोनिंग स्कीम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में सीएसएसएस (पीएस) के वर्ष 2010 के संबंध में वर्ग 'क' और 'ख' (आमेलित) की चयन सूची में निम्नलिखित नामों के शामिल होने के फलस्वरूप, अधोलिखित ग्रेड 'सी' के नियमित

आशुलिपिकों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नियमित आधार पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से सीएसएसएस के ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	तारीख से प्रभावी
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी	
1.	शिखा रूहिल्ला	31.08.2012 (अपराह्न)
2.	अनुराधा जीवराज	31.08.2012 (अपराह्न)
3.	कार्तियानी के.ए.	04.09.2012 (पूर्वाह्न)
4.	वी. भानूमती	04.09.2012 (पूर्वाह्न)
5.	प्रिया गुप्ता	05.09.2012 (पूर्वाह्न)
6.	सुजाता प्रसाद	07.09.2012 (पूर्वाह्न)
7.	रजनी मनोरंजन	07.09.2012 (पूर्वाह्न)
8.	एन. रामामूर्ति	07.09.2012 (पूर्वाह्न)
9.	एन. सी. एस. बोरा	07.09.2012 (पूर्वाह्न)

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 18 सितम्बर 2012

सं. ए. 11018/01/2007-प्रशा-I/स्था.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री राजीव कनौजिया को 18 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से परिवीक्षा पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो में वरिष्ठ वास्तुकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. ए. 32014/1/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस II (ए) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के तहत जोनिंग स्कीम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में सीएसएसएस (पीएस) के वर्ष 2010 के संबंध में वर्ग 'क' और 'ख' (आमेलित) की चयन सूची में नाम शामिल होने के फलस्वरूप, श्री ओम प्रकाश, नियमित ग्रेड 'सी' आशुलिपिक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नियमित आधार पर दिनांक 26 सितम्बर, 2012 (अपराह्न) से सीएसएसएस के ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) में नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 32014/1/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई 2012 के का. ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस II (ए) के तहत क्षेत्रीकरण (जोनिंग) योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग में वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा (निजी सहायक) के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की चयन सूची में सुश्री रोज मिंज, नियमित ग्रेड 'ग' आशुलिपिक का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 28 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. ए. 38012/03/2012-स्थापना-I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात श्री आर.के. परमार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 38012/04/2012-स्थापना-I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के पद पर तैनात श्री जय प्रकाश अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 38013/05/2012-स्थापना-I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात श्रीमती आशा सेठी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2012

सं. 32011/03/2012-स्था. II--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, राष्ट्रपति द्वारा डॉ. आशा पहिलाजानी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सहकारिता/ऋण) की, कृषि एवं सहकारिता विभाग में पे बैंड-3, 5,400/- रु. ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. (पूर्व संशोधित वेतनमान 8,000-275-13,500/-) के वेतनमान पर सहायक निदेशक (सहकारिता/ऋण), ग्रुप-'क', राजपत्रित, गैर मंत्रालयी, के पद पर 24 अगस्त, 2012 अपराह्न से पदोन्नति आधार पर नियुक्ति की जाती है।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 32011/04/2012-स्था.-2--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्री बी.वी.एन. राव, सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एन.आर.एम./आर.एफ.एस.) को कृषि एवं सहकारिता विभाग में ग्रेड वेतन 6,600/- रु. पे बैंड-3 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10,000-325-15,200/-) के साथ 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान पर पदोन्नति आधार पर दिनांक 24.08.2012 के अपराह्न से सहायक आयुक्त (एन.आर.एम./आर.एफ.एस.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 32011/04/2012-स्था.-II--विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर, राष्ट्रपति द्वारा श्री सुभाष चन्द्र राम, सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एन.आर.एम./आर.एफ.एस.) की पे बैंड-3, 6,600/- रु. ग्रेड पे के साथ, 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान (पूर्व संशोधित वेतनमान 10,000-325-15,200/-) पर सहायक आयुक्त (एन.आर.एम./आर.एफ.एस.) के पद पर दिनांक 24.08.2012 के अपराह्न से पदोन्नति आधार पर नियुक्ति की जाती है।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2012

सं. 32011/4/2011-स्था.-II--राष्ट्रपति, द्वारा श्री एस.पी. गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को 9 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से तदर्थ पदोन्नति आधार पर 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ, पीबी-3 में, 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में एक वर्ष की अवधि या उस समय तक जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है, जो भी पहले हो, के लिए सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एन.आर.एम./आर.एफ.एस.), (समूह 'क', राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) के पद हेतु नियुक्त किया जाता है।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

सं. ए-19012/2/2008-आ.प्र.--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 09.08.2012 के कार्यालय आदेश सं. 12015/3/2015-आईएसएस के अनुसरण में, भारतीय सांख्यिकी सेवा की वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर की अधिकारी तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सलाहकार श्रीमती शोभा मारवाह को एनएसएसओ (एफओडी), लखनऊ में कार्यभार संभालने के लिए 09.10.2012 (अपराह्न) से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

सं. ए-32014/01/2012-स्थापना-II--राष्ट्रपति, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस)

के निम्नलिखित आशुलिपिकों ग्रेड 'सी' को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीख से 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान पर नियमित आधार पर इस मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग के स्टेनोग्राफर ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलय) निजी सचिव ग्रेड के रूप में नियुक्त करते हैं और उन्हें वर्ष 2010 की प्रवर सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल किया गया है:-

क्र. सं.	नाम	पूर्ववर्ती विभाग/मंत्रालय	कार्यभार ग्रहण की तारीख
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	राधा कृष्णन	उपभोक्ता मामले	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
2.	ललितेश्वर दयाल	सूचना एवं प्रसारण	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
3.	रजनी गोलानी	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
4.	नीलम शारदा	ग्रामीण विकास विभाग	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
5.	ए.के. भनोट	ग्रामीण विकास विभाग	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
6.	ज्ञान राजपाल	व्यय	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
7.	एन.के. गर्ग	ग्रामीण विकास विभाग	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
8.	प्रीथीपाल सिंह	गृह मंत्रालय	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
9.	एम. वेंकटरमन	जल संसाधन	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
10.	आशा दीवान	गृह मंत्रालय	04.08.2012 (पूर्वाह्न)
11.	मधु बाला भल्ला	गृह मंत्रालय	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
12.	कृष्णा चटर्जी	विद्युत मंत्रालय	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
13.	सरला आर्य	ग्रामीण विकास	18.07.2012 (पूर्वाह्न)
14.	सुनीता सचदेवा	सूचना एवं प्रसारण	31.08.2012 (पूर्वाह्न)
15.	अर्चना	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	31.08.2012 (पूर्वाह्न)
16.	बी.डी. यादव	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	31.08.2012 (अपराह्न)
17.	चाणक्य केलकर	व्यय	03.09.2012 (पूर्वाह्न)
18.	बी.एस. बिन्दा	कृषि	05.09.2012 (पूर्वाह्न)
19.	रमेश कुमार	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	06.09.2012 (पूर्वाह्न)

एलिस टेटे, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त, 2012

सं. ए. 12024/2/2011-स्था.III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) दिनांक 17.07.2012 में वरिष्ठता कोट के लिए वर्ष 2010 (भाग) हेतु निजी सचिव की चयन सूची में उनके समावेशन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की कौडर यूनिट में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 में नियमित आधार पर

निजी सचिव के ग्रेड में सीएसएसएस के श्री देवेन्द्र सिंह गुडनु, नियमित वैयक्तिक सहायक को 24.08.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2012

सं. ए. 12024/2/2011-स्था. III-- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) दिनांक 17.07.2012 में वरिष्ठता कोट के लिए वर्ष 2010 (भाग) हेतु निजी सचिव की चयन सूची में उनके समावेशन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की कैडर यूनिट में 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 में नियमित आधार पर निजी सचिव के ग्रेड में सीएसएसएस के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायक को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से नियुक्त करते हैं--

क्र. सं.	नाम	तारीख
1.	श्री के.एल. आहूजा (सीएसएल सं. 558)	31.08.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती रमादेवी आनंद (सीएसएल सं. 779)	30.08.2012 (पूर्वाह्न)

आर. ए. सिंह, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 सितंबर 2012

सं. ए. 32014/1/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की चयन सूची 2003 के सहायक श्री मनोज कुमार यादव को इस विभाग में 4,800/- रु. ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 के 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में दिनांक 17 सितंबर, 2012 की पूर्वाह्न से, आरम्भ में दिनांक 31.12.2012 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में यह तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :--

- यह तदर्थ नियुक्ति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- इस नियुक्ति के लिए की गई यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार के उपलब्ध होने तक जारी रह सकती

है। यदि नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर रहा है तो वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवंटित अपने संबंधित संवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तारीख से (नियमित अनुभाग अधिकारी) ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

विमल, अवर सचिव

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. 2-2/2012-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/11/2012-सीएस-I (एस) दिनांक 23 अगस्त, 2012 के अनुसरण में राष्ट्रपति, डाक विभाग के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उसी संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 'अनुभाग अधिकारी' ग्रेड में तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन), वेतन बैंड (पीबी-2) में उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीख से पदोन्नत करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री के. केशवन	08.10.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री धीरेन्द्र मोहन खरे	08.10.2012 (पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्वधीन होगी :--

- तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31 दिसम्बर, 2012 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- तदर्थ नियुक्ति नियुक्त व्यक्तियों को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में समावेशन के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- तदर्थ नियुक्तियां अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोट अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध हो जाने तक जारी रहेंगी। तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों के इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियुक्ति हेतु अर्हता अर्जित न कर पाने की स्थिति में उन्हें ऐसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने पर उनके (नियमित अनुभाग अधिकारियों) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

हरीश पोखरियाल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 सितम्बर 2012

सं. ए. 35018/09/2009-प्रशा. I--दिनांक 7 सितम्बर, 2012 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 16/03/2012-ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री विशाल गगन, आईएस (ओ आर 1998) जोकि वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में निदेशक के रूप में तैनात है, को दिनांक 07.09.2012 (अपराह्न) से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक स्तर पर (पीबी-4 37,400--67,000 रुपए + जीपी 8,700/- रुपए) माननीय पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) के निजी सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार, श्री गगन को दिनांक 07.09.2012 से पर्यटन मंत्रालय में निदेशक के तौर पर अपनी इयूटी से भारमुक्त किया जाता है।

श्री विशाल गगन की नियुक्ति दिनांक 07.09.2012 (अपराह्न) और दिनांक 11.10.2014 तक (केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत निदेशक स्तर पर पांच वर्षों की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि) या माननीय पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) की अवधि के साथ सहकालिक आधार पर या जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के तौर पर कार्य करते हैं या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाएगी।

बी. एन. प्रसाद, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, अक्टूबर 2012

सं. ए. 38020/5/2012-ई. II--सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधिकारी श्री अनिल कुमार यादव, मुख्य अभियंता को सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 30.09.2012 (अपराह्न) को कार्यमुक्त किया जाता है।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

सं. 12/2012 फा. सं. 2/7/2004-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री नंदन सिंह सामंत, आईएस (एम:86) को 18.10.2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जल संसाधन मंत्रालय में पीबी-4 में 37,400--67,000 रुपए + 10,000/- रुपए (ग्रेड वेतन) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं और उन्हें संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं जी डब्ल्यू) के पद पर तैनात किया जाता है। वे संयुक्त सचिव (पीपी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd October 2012

No. RS. 20/1/2012/107-Perl.—Consequent upon acceptance of the resignation tendered by Smt. Mahalakshmi Balasubramanian, Assistant Director, by the competent authority, Smt. Mahalakshmi Balasubramanian stands relieved of her duties in the Secretariat with effect from the forenoon of 23rd October, 2012.

SUBHA CHANDRASHEKAR, Executive Officer

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 29th October 2012

No. A-12011/11/2012—Shri A. S. Kiran Kumar, Distinguished Scientist and Director, Space Applications Centre, Ahmedabad, has been promoted to Apex Scale under Merit Promotion Scheme with effect from 01.07.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 19th October 2012

No. A-19016/215/94-Adm.III—On attaining the age of superannuation, Smt. Raminder Kaur, Principal Private Secretary of CSSS cadre of Planning Commission retires from Government Service w.e.f. the afternoon of 31.10.2012.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

No A-32013/01/2012-Adm.III—Consequent upon their inclusion in the Select List of Private Secretary (PS) Grade of CSSS for the Select List Year 2010 (Part) under the Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A), dated the 17th July, 2012 and after being relieved of their duties from their respective Cadre Units, the President is pleased to appoint the following regular PAs/PSs (ad hoc) of CSSS as Private Secretary (PS) of CSSS on regular basis in Planning Commission in the Pay Structure of PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) with effect from the dates indicated against their names :—

S. No.	Name	CSL No.	SLY in PA Grade	Cadre Unit where working as regular PA/ PS (ad hoc) of CSSS prior to joining Planning Commission	Date of Joining to the Private Secretary Grade of CSSS on regular basis in Planning Commission
	Shri/Smt./Kum.				
1.	Rajendra Kumar	246	1992	Rural Dev.	19.09.2012 (FN)
2.	K. Satheesan	855	1995	Labour	10.09.2012 (AN)

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-1, the 19th October 2012

No. A-12001/02/2011-Ad.I—The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Shri Manish Tripathi, IDAS (1998) as Private Secretary to the Minister of State (I/C) (S&PI) and MoS (Chemical & Fertilizers) (Shri Srikant Jena) at Director level for the balance period of his five year Central deputation upto 30.05.2015 with effect from the date of assumption of charge of the post on relinquishing charge of the post of OSD i.e. 29.04.2012 (FN) or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

K. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 18th October 2012

No. A-38013/1/2012-VSP(A)—On attaining the age of superannuation, Shri Kuldeep Kumar, Director, Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, will relinquish the charge of the said post with effect from the afternoon of the 31st October, 2012 and retire from Government Service on the aforesaid date.

SHARDA JAIN, Joint Secretary and
Legislative Counsel

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 20th September 2012

No. K-13029/3/2012-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Arjan Kumar Sikri, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13024/2/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shrimati Manjula Chellur, Judge of the Kerala High Court, to be the Chief Justice of the Kerala High Court with effect from the date she assumes charge of her office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-13017/7/2012-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Darmar

Murugesan, Judge of the Madras High Court, to be the Chief Justice of the Delhi High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

The 3rd October 2012

No. K-11017/11-13/2010-US.I(i)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Sushil Harkauli, Judge of the Madhya Pradesh High Court, as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 17th October, 2012.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

No. K-11017/11-13/2010-US.I(ii)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Tarun Agarwala, Judge of the Uttarakhand High Court, as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court on or before 17th October, 2012.

ANIL KUMAR GULATI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd October 2012

No. I-14012/01/2012/IPS-IV—Consequent upon their selection for appointment to Indian Administrative Service on the basis of qualifying the Civil Services Examination, 2011, the President is pleased to accept the technical resignation of the following IPS Probationers of 64 RR (2011 Batch) who were appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2010, from the Indian Police Service with effect from dates mentioned against their names below:—

Sl. No.	Name of IPS Probationer	Cadre	Batch	Date of Technical Resignation
	S/Shri			
1.	Sandeep Singh, IPS (P)	UP	2011	24.08.2012 (AN)
2.	Mangesh Kumar, IPS (P)	UK	2011	24.08.2012 (FN)

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/06/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms Nupur Prasad, IPS (AGMUT-2007), in the Indian Police Service with effect from 18.08.2009.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/11/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Kerala with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	S. Sreejith, IPS (KL:1996)	05.09.1998
2.	Balaram Kumar Upadhyay, IPS (KL:1997)	07.09.1999
3.	Dinendra Kashyap, IPS (KL:1998)	28.12.2000
4.	Ashok Yadav, IPS (KL:1998)	07.09.2000
5.	Sunil Asnani, IPS (KL:1999)	20.09.2001
6.	P. Vijayan, IPS (KL:1999)	20.09.2001
7.	Santosh Varma A.R., IPS (KL:2001)	26.12.2003
8.	Vikramjit Singh, IPS (KL:2004)	06.09.2006
9.	P. Prakash, IPS (KL:2004)	27.12.2006
10.	Neeraj Kumar Gupta, IPS (KL:2005)	22.08.2007
11.	A. Akbar, IPS (KL:2005)	22.08.2007
12.	Kori Sanjay Kumar Gurudin, IPS (KL:2005)	22.08.2007
13.	Debesh Kumar Behera, IPS (KL:2007)	18.08.2009
14.	Rajpal Meena, IPS (KL:2007)	10.12.2009

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 25th October 2012

No. 1/3/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Wanlambok Synrem (IES:85), as Economic Adviser in North Eastern Council (NEC) Secretariat, Shillong under Ministry of Development of North Eastern Region with effect from 18th April, 2012 and until further orders.

ASHOLI CHALAI, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 21st August 2012

No. 20/S/76-Ad.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Veena Khanna, Principal Private Secretary in the Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

No. 20/G/1327-Ad.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Anjali Mathur, Section Officer in the Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

No. 20/G/1325-Ad.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Mohini Malhora, Section Officer in the Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

No. 20/G/1288-Ad.I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri P. Prabhakaran, Director in the Department of Personnel and Training retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

The 11th September 2012

No. A-32013/6/2012-Ad.I(Pt.I)—Consequent upon his transfer from Department of Rural Development to this Department vide Order No. 5/2/2012-CS.I(U) dated 17th August, 2012 the President is pleased to appoint Shri A. D. James (CSL No. 4678-A), Under Secretary in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 10th September, 2012 and until further orders.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 17th October 2012

No. 32/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri B.N. Thomas (DoB : 30.09.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30th September, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

No. 33/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Jaswant Kumar (DoB : 25.09.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30th September, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

No. 34/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri K.V. Chandrasekharan (DoB: 12.09.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of

General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30th September, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

No. 35/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri S. L. Arora (DOB: 28.09.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 30th September, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

No. 36/PB-I/2012—On attaining the age of superannuation, Shri Subhash Kumar (DoB : 05.09.1952), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 31st August, 2012.

DEEPIKA MISHRA, Administrative Officer (PB-I)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 8th August 2012

No. 13 of 2012 (F. No. A-39011/1/2010-Ad.VI)—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri K. Shubhendra from Indian Revenue Service with effect from 11.05.2012.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

The 19th October 2012

No. 17/2012 (F. No. A-23012/12/2009/Ad-VI)—The following officers of the Indian Revenue Service (Income Tax) are granted Non-functional upgradation in the Higher Administrative Grade (HAG) in the Pay Band of Rs. 67,000—79,000/- with effect from 23.08.2011 :—

Sl. No.	Name	Civil Code No.
1	2	3
	S/Shri/Smt./Ms.	
1.	Archana Ranjan	79024
2.	T. Jayashankar	79025
3.	Kamaresh Sarkar	79026
4.	Surbhi Sinha	79028
5.	Vivek Varun Prasad	79029
6.	Indla Suresh Babu	79030
7.	Anil Kumar Singh	79031
8.	Ravi Mathur	79032
9.	Rajiv Nayan Prasad	79033
10.	A. K. Sinha	79034

1	2	3
11.	Parvela Raghu	79035
12.	Kulvinder Singh	79036
13.	Lav Kumar Saxena	79037
14.	Ashok Kumar Bhardwaj	79039
15.	Pradeep R. Sethi	79040
16.	Gurpreet Singh	79043
17.	Ashwini Kumar Mehta	79044
18.	Amit Chatterjee	79045
19.	Raj Kumar	79046
20.	Rattan Kishore Bajaj	79047
21.	Sidhartha Mukherjee	79050
22.	Shebha Bhattacharaya	79052
23.	Narayan Prasad Bhagat	79054
24.	Amarendra Kumar Tewary	79055
25.	Fakir Mohan Mohanty	79056
26.	Vijay Kumar Bakshi	79058
27.	Gunjan Mishra	79059
28.	Sushil Kumar Sahai	79060
29.	Nishi Singh	79063
30.	L. H. Manne	79066
31.	Har Prasad Kain	79069
32.	Jagtar Singh	79070
33.	Hari Krishan	79072
34.	C. L. Dengzongpa	79078

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 11th October 2012

No. 11012/1/2011-IES—The President is pleased to appoint the following candidates who were successful in the Indian Economic Service Examination 2011 conducted by the Union Public Service Commission, to the Indian Economic Service in the Junior Time Scale in the Pay Scale of Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-, under Rule 6 (a) of the IES Rules 2008, as amended, on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
1.	Ms. Tamanna Sinha	03.09.2012 (F/N)
2.	Ms. Purna Gupta	03.09.2012 (F/N)
3.	Ms. Nayantara Sasikumar	03.09.2012 (F/N)
4.	Shri Sukhdeep Singh	03.09.2012 (F/N)

1	2	3
5.	Ms. Nidhi Amit Satija	03.09.2012 (F/N)
6.	Shri Deepak Ranjan	03.09.2012 (F/N)
7.	Shri Sushant Sudan	03.09.2012 (F/N)
8.	Ms. Karamjeet Kaur	03.09.2012 (F/N)
9.	Ms. Anu Jain	03.09.2012 (F/N)
10.	Shri Pratiyush Kumar	03.09.2012 (F/N)
11.	Shri Kote Sandip Ravindra	03.09.2012 (F/N)
12.	Shri Manoj Kumar Madholia	03.09.2012 (F/N)
13.	Shri Dinesh Kumar	03.09.2012 (F/N)
14.	Shri Ramesh Kumar Yadav	03.09.2012 (F/N)
15.	Ms. Sweta	03.09.2012 (F/N)
16.	Shri Arun G	03.09.2012 (F/N)
17.	Shri Rajesh Kumar	03.09.2012 (F/N)
18.	Ms. Lal Ramdinpuui Renthlei	03.09.2012 (F/N)

BIDISHA CHAUDHURI, Director (IES)

New Delhi, the 22nd October 2012

No. A-22011/1/2012-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri Deepak Rao (IES : 2008) as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 01.10.2012 (FN).

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 26th October 2012

No. A-22012/8/2012-Estt.—In pursuance of Deptt. of Expenditure's OM No. A-12026/8/2010-CAS dated 16.10.2012, Shri Amar Singh, PS (ad hoc) of the Cadre of Ministry of Home Affairs is taken on the strength of Deptt. of Financial Services, Finance Ministry on his appointment as PS grade of CSSS on regular basis on inclusion of his name in the Select List Year 2010 (Part) against the seniority quota with effect from the afternoon of 8.10.2012.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 26th September 2012

No. 7/3/2011-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri K. Sai Mohan as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Hyderabad, for a period of five years with effect from 10.9.2012 (F.N.) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

The 5th October 2012

No. 8/5/2011-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Justice R. K. Gupta Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, to discharge the functions of Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, in addition to his own charge with effect from 11.10.2012 till return of Justice S. N. H. Zaidi, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, from leave.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 15th October 2012

No. A-11013/2/2012-AD.(Pt. 3)—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Yadav, IPS (HP : 96) as OSD to the Finance Minister (Shri P. Chidambaram) in his personal staff in the Ministry of Finance at Director level on 'lateral shift' basis with effect from 06th August, 2012 and up to the balance period of his admissible tenure of seven years i.e. up to 06.07.2015 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Finance Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

The 17th October 2012

No. A-12026/5/2010-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. Sudha Krishnan, IA&AS (1983), as Joint Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 16th October, 2012 for the balance period of her Central deputation of five years i.e. upto 08.11.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 25th September 2012

No. A-32013/8/2012/Gr.A/2065-2078—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officer (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-Revised) (New PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/-) in terms of Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, with effect from 1st October, 2012 (FN) :—

S. No. Name

S/Shri

1. A. K. Mishra (on deputation to Gujarat Vidyapeeth)
2. Parvesh C. Talwar
3. M. M. Kaushik
4. Ramesh Chander
5. Ramesh Hada (SC)
6. R. S. Shende (SC)
7. Shambhoo Pd. Jharia (SC)

2. The period of probation shall be two years from 1st October, 2012.

C. MAHESHWARAN, Dy. Controller Genl. of Accounts

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 18th October 2012

No. PFG(579)/97-Admn. II—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri N. Krishnamoorthy, as Registrar of Companies at Hyderabad with effect from 03.10.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(483)/89-Admn. II—In exercise of the powers conferred by Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri M. V. Chakranarayan to officiate as Official Liquidator of Kerala with effect from 05.10.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 11th October 2012

No. 24/2012 (A-19011/30/2012-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Rajendra Pratap Singh, IDAS (1999) as Deputy Secretary in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB : 3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the afternoon of 5th October, 2012, for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

PREM T. N., Under Secy.

New Delhi, the 12th October 2012

No. A-32015/7/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Sharma, Private Secretary (ad hoc) of CSSS as regular Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in Supply Division for the Select List year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. 01.10.2012 (FN).

2. Smt. Anuradha Sharma, PS of CSSS, is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 22nd October 2012

No. A-32013/1/2012/HRD-1—The President is pleased to appoint Shri K. C. Rout, ITS Additional Director General of Foreign Trade in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Office of the Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the afternoon of 19th October, 2012, and until further orders.

ASHISH MOHAN, Dy. Dir. Genl. of Foreign Trade

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 10th September 2012

No. A-32011/4/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 6/11/2012-CS.I(S) dated 23rd August, 2012, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar [SL-2003 (Sr. No. 77)/Genl] of Central Secretariat Service (CSS) borne on the cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas as Section Officer in this Ministry on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (GP) w.e.f. 05.09.2012 (FN) for a period upto 31st December, 2012, or till regular Section Officer is made available or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Sanjay Kumar to the post of Section Officer is purely ad hoc in nature and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the post of Section Officers grade of CSS.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 17th October 2012

No. A-38011/5/2012-Estt.—On attaining the age of superannuation, Dr. Basudev Mohanty (IES : 76), Sr. Adviser in the cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st August, 2012.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 3rd September 2012

No. A-38011/3/2012-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri D. M. Verma, Under Secretary stands retired from the service of the Government of India with effect from 31.08.2012.

RAJIVA KUMAR, Dy. Secy. (A&V)

No. A-38011/11/2011-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Ajay Bhattacharya, Secretary (Fertilizers) stands retired from the service of the Government of India with effect from 31.08.2012.

RAJIVA KUMAR, Dy. Secy. (A&V)

New Delhi, the 28th September 2012

No. A-12011/4/2012-HR-II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/14/2011-CS-I (D) dated 31st July, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Surinder Kaur (CSL No. 4756), a regular Under Secretary of Central Secretariat Service, as Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad hoc basis in the Department of Fertilizers, with effect from the forenoon of 17.08.2012, initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions contained in DoPT's afore said order.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-12011/4/2012-HR-II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/14/2011-CS-I (D) dated 31 July, 2012, the President is pleased to appoint Sh. H. C. Bhanot (CSL No. 4714), a regular Under Secretary of Central Secretariat Service, as Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on ad-hoc basis in the Department of Fertilizers, with effect from the forenoon of 06.08.2012, initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions contained in DoPT's aforesaid order. He is posted in the Office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), Department of Fertilizers w.e.f. the forenoon of 24th August, 2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-19011/12/2012-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Mittal, IAS (PB : 78) as Secretary in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers with effect from the forenoon of the 10th September, 2012, in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 2/19/2012-EO (SM. I) dated 7th September, 2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/17/2012-HR-II.—The President is pleased to appoint Smt. Uma Rajput (CSL No. 874) as Private Secretary of CSSS for the Select List Year 2010 (Part) on regular basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 04-09-2012 (AN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/02/2012-CS. II (A), dated 17-07-2012.

2. She is posted in the Department of Fertilizers against existing vacancy.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/17/2012-HR-II.—The President is pleased to appoint Smt. Gurmeet Kaur Ghai (CSL No. 177) as Private Secretary of CSSS for the Select List Year 2010 (Part) on regular basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 04.09.2012 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 04/02/2012-CS. II (A), dated 17.07.2012.

2. She is posted in the Department of Pharmaceuticals against existing vacancy.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

New Delhi, the 29th March 2012

No. A-12011/18/2006-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Neeraj Singhal, Indian Telecom Service (1994) as Director in the Department of Fertilizers under the Ministry of Chemicals & Fertilizers for a period of five years, with effect from the forenoon of 19th March, 2012 or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DoPT's O.M. No. 09/07/2011-EO (MM. I) dated 23.12.2011 & Bharat Sanchar Nigam Limited's O.O. No. BSNL/BBNW/Staff-I/Pt.-V/Part File/58 dated 16.03.2012.

2. He is designated as Director (PSU).

P. B. SAHU, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 29th October 2012

No. 12/08/2012-ASO—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Sharma, IOFS (1989) as Director in the Ministry of Coal w.e.f. 29.10.2012(FN) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

S. ASHRAF, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 25th October 2012

No. P-1243/2010-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri A. M. Pathak, Director, Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi under the Department of Consumer Affairs will retire from Government service in the afternoon of 31st October, 2012.

G. N. SINGH, Director (Estt.)

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 22nd October 2012

No. A-12011/02/2006-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota and nomination to the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology vide Department of Personnel & Training's OM No. 04/02/2012-CS.-II(A) dated 17.07.2012 and in pursuance of Department of Science & Technology's Notification No. A-32011/01/2012-Adm.-I(A) dated 08/10/2012, Shri Kulbir Singh Saini, Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with GP of Rs. 4,800/- is taken on the strength of Department of Biotechnology w.e.f. 10th September, 2012 (FN) and until further orders.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DEPTT. OF HEALTH AND F. W.)

New Delhi, the 11th September 2012

No. A-32014/01/2012-Estt.-I—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2010 in the cadre of Ministry of Health and Family welfare under the zoning scheme, vide DoP&T's OM No. 04/02/2012-CS.II(A) dated 17 July 2012, the President is pleased to appoint the under-mentioned regular Grade 'C' Stenographers to Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS under the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from the dates mentioned against each :—

Name	W. E. F.
(S/Shri/Smt./Ms.)	
i. Shikha Ruhilla	31.08.2012(AN)
ii. Anuradha Jeevraj	31.08.2012(AN)
iii. Karthiyani K. A.	04.09.2012(FN)
iv. V. Bhanumathi	04.09.2012(FN)
v. Priya Gupta	05.09.2012(FN)
vi. Sujatha Prasad	07.09.2012(FN)
vii. Rajani Manoranjan	07.09.2012(FN)
viii. N. Ramamurthy	07.09.2012(FN)
ix. N. C. S. Bora	07.09.2012(FN)

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 18th September 2012

No. A-11018/01/2007-Admn-I/Estt.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. Rajeev Kanaujia as Senior Architect in Central Design Bureau under the Ministry

of Health & Family Welfare, on probation, with effect from the forenoon of 18 September, 2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 28th September 2012

No. A-32014/01/2012-Estt.-I—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2010 in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare under the zoning scheme, vide DoP&T's OM No. 04/02/2012-CS.-II(A) dated 17 July, 2012 the President is pleased to appoint Shri Om Prakash, a regular Grade 'C' Stenographer to Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS under the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from 26th September 2012 (A.N.).

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. A-32014/01/2012-Estt.-I—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS (PS) for the year 2010 in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare under the zoning scheme, vide DoP&T's OM No. 04/02/2012-CS.-II(A) dated 17 July, 2012 the President is pleased to appoint Ms. Rose Minz, a regular Grade 'C' Stenographer to Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS under the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from 28th September 2012 (F.N.).

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 1st October 2012

No. A-38012/03/2012-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Sh. R. K. Parmar, posted as Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. A-38012/03/2012-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Sh. Jai Prakash, posted as Under Secretary in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. A-38013/05/2012-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Asha Sethi, posted as Section Officer in the Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 30th August 2012

No. 32011/03/2012-E-II.—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Asha Pahilajani, Senior Technical Assistant (Cooperation/Credit) to the post of Assistant Director (Cooperation/Credit), Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-, PB-3 (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) on promotion basis w.e.f. the afternoon of 24th August, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 32011/04/2012-E-II.—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri B. V. N. Rao, Assistant Soil Conservation Officer (NRM/RFS) to the post of Assistant Commissioner (NRM/RFS), in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-, PB-3 (pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/-) on promotion basis w.e.f. the afternoon of 24th August, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 32011/04/2012-E-II.—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Subhash Chandra Ram, Assistant Soil Conservation Officer (NRM/RFS) to the post of Assistant Commissioner (NRM/RFS), in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-, PB-3 (pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/-) on promotion basis w.e.f. the afternoon of 24th August, 2012.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 16th October 2012

No. 32011/04/2011-E-II.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Gupta, Senior Technical Assistant (NRM/RFS) to the post of Assistant Soil Conservation Officer (NRM/RFS), (Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-, PB-3 on ad hoc promotion basis w.e.f. the forenoon of 09th October, 2012, for a period of one year or till such time the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 15th October 2012

No. A-19012/02/2008-EA.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order

No. 12015/03/2012-ISS dated 09.08.2012, Smt. Shobha Marwah, Senior Administrative Grade level officer of Indian Statistical Service and Adviser, Directorate of Economics & Statistics, is relieved of her duties in the Directorate of Economics & Statistics w.e.f. 09.10.2012 (AN) to join NSSO (FOD), Lucknow.

A. K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th October 2012

No. A-32014/01/2012-Estt.-II.—The President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of various Ministries/Departments as indicated against their names, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) PS Grade of CSSS cadre of this Ministry on regular basis with effect from the dates shown against their names in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- and included in the Select List Year 2010 (Part) (Seniority Quota) :—

Sl. No.	Name	Previous cadre unit of the Officer	Date of assumption of charge
(S/Shri/Smt.)			
1.	Radha Krishnan	Consumer Affairs	18.07.2012(FN)
2.	Laliteswar Dayal	I&B	18.07.2012(FN)
3.	Rajni Golani	SJ&E	18.07.2012(FN)
4.	Neelam Sharda	Rural Dev.	18.07.2012(FN)
5.	A. K. Bhanot	Rural Dev.	18.07.2012(FN)
6.	Gian Rajpal	Expenditure	18.07.2012(FN)
7.	N.K. Garg	Rural Dev.	18.07.2012(FN)
8.	Prithi Pal Singh	MHA	18.07.2012(FN)
9.	M. Venkataraman	Water Resources	18.07.2012(FN)
10.	Asha Dewan	MHA	04.08.2012(FN)
11.	Madhu Bala Bhalla	MHA	18.07.2012(FN)
12.	Krishna Chatterjee	Power	18.07.2012(FN)
13.	Sarla Arya	Rural Dev.	18.07.2012(FN)
14.	Sunita Sachdeva	I&B	31.08.2012(FN)
15.	Archana	RT & H	31.08.2012(FN)
16.	B. D. Yadav	RT & H	31.08.2012(AN)
17.	Chanakya Kelkar	Expenditure	03.09.2012(FN)
18.	B. S. Bindra	Agriculture	05.09.2012(FN)
19.	Ramesh Kumar	Science & Technology	06.09.2012(FN)

ALIS TETE, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 28th August 2012

No. A-12024/2/2011-E-III—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Private Secretary for the year 2010 (Part) against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2012-CS-II (A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint Shri Devender

Singh Gudnu, a regular Personal Assistant of CSSS to the grade of Private Secretary on regular basis in Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 24.08.2012 (FN).

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 4th September 2012

No. A-12024/2/2011-E-III.—Consequent upon inclusion of their name in the Select List of Private Secretary for the year 2010 (Part) against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2012-CS-II (A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint the following regular Personal Assistant of CSSS to the grade of Private Secretary on regular basis in Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date
1.	Sh. K. L. Ahuja (CSL. No. 558)	31.08.2012 (AN)
2.	Smt. Ramadevi Anand (CSL. No. 779)	30.08.2012 (AN)

R. A. SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 18th September 2012

No. 32014/1/2012-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Yadav, Assistant of Select List 2003 of Central Secretariat Service Cadre of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, as Section Officer on ad hoc basis with effect from the forenoon of 17th September, 2012 in this Department in Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-, initially for the period upto 31.12.2012.

2. Ad hoc promotion to the grade of Section Officer will be subject to the following conditions :—

- The ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer grade of CSS.
- The ad hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's

Grade on availability of such regular officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DoP&T.

VIMAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 5th October 2012

No. 2-2/2011-Admn.—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 6/11/2012-CS-I(S) dated 23rd August 2012, the President is pleased to promote the following regular Assistants of CSS of the cadre of Department of Posts to the Section Officers' grade of CSS in the same cadre on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay), with effect from the date as mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
1.	Shri K. Kesavan	08.10.2012 (F/N)
2.	Shri Dheerendra Mohan Khare	08.10.2012 (F/N)

2. The ad hoc promotion/appointment would be subject to the following terms and conditions :—

- The period of ad hoc promotion would be upto 31st December 2012 or till the regular Section Officers become available, whichever is earlier.
- The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS.
- Ad hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Dir. General (Admn.)

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi-110001, the 24th September 2012

No. A-35018/09/2009-Admn. I—In pursuance of Department of Personnel & Training' OM No. 16/3/2012-EO (MM-I) dated 7th September, 2012, the President is pleased to appoint Shri Vishal Gagan, IAS (OR : 1998) currently working as Director in the Ministry of Tourism as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Tourism (Shri Subhodh Kant Sahai) at Director level (PB-4, Rs. 37400—67,000/- + GP Rs. 8,700/-) on central deputation basis w.e.f. 07.09.2012 (A/N). Accordingly, Shri Gagan is relieved of his duties as Director in the Ministry of Tourism w.e.f. 07.09.2012 (A/N).

2. The appointment of Shri Vishal Gagan will be w.e.f. 07.09.2012 (A/N) and upto 11.10.2014 (balance period of his central deputation of five years at Director level under Central Staffing Scheme) or on co-terminous basis with the terms of Hon'ble Minister of Tourism (Shri Subodh Kant Sahai) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

B. N. PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the October 2012

No. A-38020/5/2012-Estt. II—On attaining the age of superannuation, Shri Anil Kumar Yadav, chief Engineer, an officer of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi has retired from Government Service on 30.09.2012 (AN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd October 2012

No. 12/2012 F. No. 2/7/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Nandan Singh Samant, IAS (AM : 86) as Joint Secretary in the Ministry of Water Resources in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 18.10.2012, for a period of five years or until further orders, whichever is earlier and he is posted as Joint Secretary (Admn. & GW). The officer will also hold the additional charge of Joint Secretary (PP).

L. P. SHARMA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012.